

COL SATSANGI'S KIRAN MEMORIAL PUBLIC SCHOOL

Satbari, Chattarpur, New Delhi – 110 074

WINTER HOLIDAY HOME WORK

Warm Greetings.

For the past 8½ months, we have enjoyed taking care of our students – your precious children. You must have noticed that they all love to come to school. For the next four weeks yourself, their natural guardian, will spend the vacation with them.

Let's share some tips to make this period a fruitful and happy time for them.



1. Have at least 2 meals with your children as a family. Teach them the importance and hard work of the farmers and ask them not to ever waste their food.

पूरा परिवार दिन में 2 बार एक साथ बैठकर खाना खाएँ और बच्चों से खाने की कीमत और किसानों की मेहनत के विषय में भी बात करें। (खाना बर्बाद बिल्कुल भी न करें)

2. Let them wash their own plates after meal. Children learn dignity of labour by engaging in such activities.

बच्चों को उनकी थाली स्वयं धोने दें, इससे बच्चे हर कार्य का सम्मान करना सीखेंगे।

3. Allow them to help you in cooking. Let them make their own vegetable and fruit salad.

खाना बनाते समय बच्चों को साथ रखें और सलाद आदि बनाने में उनकी मदद लें।

4. Learn 5 new words in English and Hindi everyday and list them in separate HHA notebook (with their meanings). It will be great if the children use the new words in sentences.

रोज़ 5 अंग्रेज़ी और हिन्दी के नए शब्दों को अर्थ सहित लिखें। बहुत अच्छा होगा अगर बच्चे नए शब्द वाक्यों में भी प्रयोग करें।

5. Visit 3 neighbours and get to know about them.

बच्चे कम से कम 3 पड़ोसियों से मिलें और उनसे बातचीत करें।

6. Allow your child to play outdoors, get hurt and get dirty. It's ok for them to fall down and experience pain, once in a while. A comfortable life in the bed or sofa will make children lazy. They will learn to manage situations.

अपने बच्चों को बाहर मैदान में खेलने भेजें, गिरना और चोट लगना उनके लिए एक मामूली बात होनी चाहिए और इस दर्द व चोट से वह उठना और परिस्थितियों को संभालना सीखेंगे।

7. Teach them a few folk songs and folk dance(s) as there will be a solo dance competition after vacation.

बच्चों को लोकगीत और लोकनृत्य सिखाएं। छुट्टियों के बाद एकल नृत्य प्रतियोगिता होगी।

8. Get some storybooks like Amar Chitra Katha, Chandamama Nandan etc. for your kids.

बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी-2 कहानियों की पुस्तकें दें। जैसे अमर चित्र कथा, नंदन, चंदा मामा इत्यादि। आपको अपना बचपन भी याद आएगा।

9. Keep your child away from T.V., mobile, computers and other electronic gadgets, as they have their whole life for that.

बच्चों को मोबाइल, कम्प्यूटर, टीवी से दूर रखें, इसके लिए उनके पास सारी जिंदगी पड़ी है।

10. Kindly avoid giving chocolates, jellies, cream cakes, chips, aerated drinks and too many bakery and fried items. Instead healthy food will go a long way to maintain the child's well being. Fruits and vegetables are must in the diet.

बच्चों को चॉकलेट, जैली, 0म केक और बहुत सी तली, भुनी चीजें कम से कम दें। सेहतमंद खाना सब के लिए फायेदेमंद होगा। सर्दियों का मौसम है मूंगफली, गज्जक, सेब, संतरे, पालक, आवला बच्चों को खिलायें और खुद भी खायें।

11. Visit the grandparents and let your children bond with them, their love and emotional support is very important for your child. Click snaps with them and paste the snaps in HHA notebook or a scrapbook.

बच्चों को उनके दाद-दादी, नाना-नानी के साथ समय व्यतीत करने दें ताकि बच्चों को बड़ों की अहमियत का अहसास हो और उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें खींच कर उनकी छुट्टियों की होम वर्क कॉपी में चिपकाए।

12. Take them to your workplace and let your child understand that you work very hard to support the family. Also convey that you enjoy your work.

बच्चों को अपने दफतर लेकर जाएं और दिखाए कि आप घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को बताएं कि आपको काम करना अच्छा लगता है।

13. Share stories about your childhood and your family history.

बच्चों से अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में बताए।

14. Encourage your child to raise a kitchen garden and specially use waste plastics (bottles) and discuss with them about the importance of plants.

पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पौधे लगाए और बच्चों को पौधों के महत्व से परिचित कराए।

15. Take your child to the market and encourage them to buy small household items e.g. bread, milk etc. Let them calculate. In this way they learn addition and subtraction.

अपने बच्चों को बाज़ार ले कर जाएं और घर का सामान खरीदने में मदद करें, इससे उन्हें हिसाब करना आएगा। (जमा, घटा, भाग और गुणा)

16. Our students learn to say the magic words- welcome, thank you, sorry, excuse me, please at the right time. Kindly reinforce the same. If they make a mistake, they must not only 'say sorry', they must feel it

बच्चे अपनी द्वारा की गई गलतियों को समझें। साथ में यह भी समझें कि माफी मागने से कोई छोटा नहीं होता और माफी दिल से मांगें।

17. Look into the eyes of your little one and thank God for giving you the unique gift. As they are developing, they will continue to soar to greater heights.

बहुत प्रेम से अपने बच्चों की आंखों में देखें और कृपालु भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको अनोखा उपहार दिया।

As parents it is important to invest your time with them now. Have a wonderful vacation!. इन प्यारे-2 बच्चों के मधुर बचपन का साथ आपका निवेश है। हर्ष-उल्लास के साथ छुट्टियां बिताए।

One page handwriting of English and Hindi to be done everyday.

For Class – I : Table 1 to 5	For Class – II : Table 1 to 10	For Class – III : Table 5 to 12
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Thank you!

Have a wonderful Vacation!